



## BANARAS BEADS LIMITED

AN EXPORT HOUSE RECOGNISED BY GOVERNMENT OF INDIA  
CIN No. L01131UP1980PLC004984

Manufacturers & Exporters of All kind of Beads, Fashion Jewelry and Accessories.

AN ISO  
CERTIFIED  
COMPANY

Regd. &	: A-1, Industrial Estate,
Head Office	: Varanasi - 221106 (INDIA)
Phones	: +91-542-2370161-4 (4 Lines)
Fax	: +91-542-2370165, 2370214
E-mail	: rksingh@banarasbead.com investor@bblinvestor.com
Website	: <a href="http://www.banarasbead.com">www.banarasbead.com</a>

To,  
The BSE Limited  
Department of Corporate Services,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai – 400001

December 11, 2025  
The National Stock Exchange Of (I) Ltd.,  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No.C/1, G-Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai - 400 051

**Sub.: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation 2015 of published notice under SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025.**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, we are herewith attaching copy of Notice published in Business Standard (English) edition and in Business Standard (Hindi) edition newspaper on 11.12.2025 in reference of SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, towards **opening of special window for re-lodgment of transfer requests of physical shares.**

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **BANARAS BEADS LIMITED**

**(R.K. SINGH)**  
**COMPANY SECRETARY**  
**FCS- 4071**  
**Encl. As above**

DCB Bank Ltd.  
A-Sot House, 7/66, D.B. Gupta Road,  
Kari Bagh, New Delhi - 110005

## DCB BANK

### POSSESSION NOTICE

The undersigned being the authorized officer of the DCB Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on below mentioned dates calling upon the borrowers (Borrower/s and Co-Borrower/s) to repay the amount mentioned in the notice as detailed below in tabular form with further interest thereon from within 10 days from the date of the same.

The borrower and Co-Borrower has failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Rules 2002 on this 09-12-2025.

The borrower, Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property (Description of the immovable Property) and any dealings with the property will be subject to the charge of the DCB Bank Ltd., for respective amount as mentioned here below.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Demand Notice Dated.	26-04-2023
Name of Borrower(s) and Co-borrower(s)	ABHIMANYU KALRA and RITU KALRA
Total Outstanding Amount.	Rs.1,49,98,782.88/- (Rupees One Crore Forty Nine Lakh Ninety Eight Thousand Seven Hundred and Eighty Two Rupees Only) as on 26-04-2023.
Description of The Immovable Property	FRONT PORTION ON THE FIRST FLOOR OF PROPERTY NO. 4611, BEARING MUNICIPAL CORPORATION NO. 264 KA1, SITUATED AT WAZIR HASAN ROAD, P. S. HAZRATGANJ, LUCKNOW UTTAR PRADESH- 226001 (the "Secured Asset").
Sd/- Authorized Officer, DCB Bank Limited	

Date: 11.12.2025,  
Place: LUCKNOW, UTTAR PRADESH

# Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — every day with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, **SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in**

# Business Standard Insight Out

## CARE RATINGS LIMITED

CIN: L67190MH1993PLC077691

Regd. Office: 4th Floor, Godrej Coliseum, Sonamay Hospital Road, Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai - 400 022. Tel: 022-67543456, Email: investor.relations@careedge.in Website: www.careedge.in

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Pursuant to Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time, the Company is required to transfer the shares, in respect of which Dividend has remained unclaimed and unpaid consequently for seven consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. In the case of CARE Ratings Limited, the due date for the transfer of such shares, in respect of which dividend has remained unclaimed and unpaid consequently for seven consecutive years or more is 20<sup>th</sup> March 2026. Pursuant to the said Rules, the Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e., KFin Technologies Limited, has advised that the above shareholders whose share have become due for transfer to IEPF. The Company has uploaded the details of such shareholders on its website viz. www.careedge.in.

Notice is further given to the shareholders to claim / encash the unpaid / unclaimed Dividend relating to financial years 2018-19 and onwards latest by 20<sup>th</sup> March 2026 so that the shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if Dividend remains unclaimed/unpaid as on the due date, the Company will proceed to initiate action for the transfer of shares of such shareholders.

On transfer of the Dividend and the shares to IEPF, the shareholders may claim the same by making an application to IEPF in Form IEPF-5 as per the Rules. The said Form is available on the website of IEPF viz. www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Share Transfer Agent, as mentioned below:

M/s KFin Technologies Ltd. Unit: CARE Ratings Limited (CARE) Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana. Tel.: 040-67162222; Toll Free: 1800-3094-001

Email: enward.ris@kfinitech.com.

### For CARE Ratings Limited

Sd/-  
Manoj Kumar CV

Place: Mumbai  
Company Secretary & Compliance Officer

## BANARAS BEADS LIMITED (An ISO Certified Company)

(An Export House Recognised by Government of India)

Regd. & Head Office : A-1 Industrial Estate, Varanasi-221106

Ph: 0524-2370161-6449(ines)

E-mail: sales@banarasebads.com, investor@bbininvestor.com

GSTIN No. 29AAEBCB2621Z91

Regd. No. U63LA21UP080PC0049A

NOTICE TO SHAREHOLDERS  
OPENING OF SPECIAL WINDOW  
FOR RE-LODGE-MENT OF TRANSFER REQUESTS OF  
PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that in terms of SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025; all Shareholder of the Company are hereby informed that a special window is open for a period of six months i.e. from July 7, 2025 till January 6, 2026 for re-lodgement of transfer requests for physical shares which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and reject/ returned/ not attended, due to deficiency in the documents/process or otherwise. Investor who have missed earlier decline of March, 2021 (the cut-off date for re-lodgement of transfer requests) can take this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) Mas Services Limited at e-mail id investor@msserv.com at their office at T-34, 11th Floor, Okha Industrial Area, Phase-II New Delhi 110020 or the Company at investor@bbininvestor.com for further assistance.

By order of the Board  
For Banaras Beads Limited

(R.K. Singh)

Company Secretary/

Compliance Officer

FCS-4071

Place : Varanasi  
Date : 10.12.2025

### FORM No. 1

## DEBT RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW

Area of Jurisdiction, Part of Uttar Pradesh

601/1 University Road Near Hanuman Setha Mandir, Lucknow-226007

DRD No. 521/2024/DRD

NOTIFICATION FOR THE (2) SECOND SCHEDULE TO THE

INCOME TAX ACT 1961 READ WITH SECTION 29 THE  
RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT 1963

Punjab & Sind Bank .....Applicant

(Birahana Branch Lucknow U.P.)

Versus

M/s Hind Transport Company & Other .....Defendants

To,

1. M/s Hind Transport Company, Proprietor/

Authorized Signatory Mohd. Arsal Khan, Office of

House No. 463/10/A-4, Hata Mirza Khan, Khan

Husainabad, Chowk, Lucknow-226003.

2. M/s Hind Transport Company, S/o Mohd. Anvar, Proprietor M/s

Hind Transport Company, R/o House No. 463/10/A-4, Hata Mirza Khan, Khan, Husainabad, Chowk, Lucknow-226003.

3. Shri Arun Verma, S/o Shri Mangal Prasad Jaisi, R/o

Villa No.565, Sector-B, Eldeco City, IIT Road,

Lucknow-226020. ....Credit Debtor

This is mostly by virtue of Rs. 53,76,155.52/- (Rupees Fifty Three Lakh Sixty Six Thousand Five Hundred and Fifty Two Only) and paisa Fifty Two Only along with the interest 10.00% per annum with monthly rest from the date of filing of the Original Application i.e. 04.11.2022 will cost jointly and severally for the loss of the Plaintiff and the Plaintiff and is hereby allowed exported against you the address as per order dated 22.03.2024 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 1095/2024/DRD.

You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days of the receipt of the notice. Failing

which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act 1993.

You are hereby ordered to declare on affidavit the

particulars of Assets on or before 10.02.2026.

You are hereby directed to appear before the undersigned on 10.02.2026 at 11:00 AM.

In addition to the sum aforesaid you will also liable to pay.

Detail of cost

Application Fees : Rs. 56,000.00

Advocate Fees : Rs. NA

Misc. Expenses : Rs. NA

Clerkage : Rs. NA

Publication Charges : Rs. NA

Given under my hand and seal on this 26th November, 2025.

RECOVERY OFFICER I

DEBT RECOVERY TRIBUNAL



## Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai -400069

Kanpur Branch: Office Premises 102,103,108, 14/144/14/144-B, 1st Floor, Ratan Esquire, Chunpangaon, Kanpur-208001 District - Kanpur (U.P.)

### E-AUCTION – SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immoveable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below mentioned immoveable property mortgaged, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited will be sold on "As is where it is", "As is what is", and "Whatever there is" with no known encumbrances/particulars of which are given below.

S. No	Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date & Amount	Description of the Immoveable property	Reserve Price (RP) (10% of RP)	END (10% of RP)	Nature of possession
1	(Loan Code No. 00200002724 / Kanpur Branch, Akhilesh Kumar (Borrower) Neetu (Co-Borrower) and Rakesh Kumar (Guarantor))	11-10-2023 & ₹ 10,19,779/-	All that part & parcel of property bearing, Part of Plot No. 8 A on Plot No. Arzzi No. 403 Bari Akbarpur Kachpur, Kanpur, Uttar Pradesh- 208017 Boundaries: East - Plot No. 09, West - 07, 62 Meter Wide Road, North - Plot No. Maa HP Gas Meter Vritak (Guarantor)	₹ 16,50,000/-	₹ 1,65,600/-	Physical

1. Last Date of Submission of DO of Current Money Deposit along with KYC, Tender Form and accepted Terms and Conditions (Tender Documents) is 15.01.2026 within 3:00 PM at the Branch Office where the auction mentioned herein above or uploaded on <https://bankauctions.com>. Tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the same.

2. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 16.01.2026 on <https://bankauctions.com> at 4:00 PM.

3. All tenders shall be rejected for any liabilities pending before the property as mentioned above. The property shall be auctioned on "As is Where is Basis", "As is What is Basis" and "Whatever there is" basis.

4. The Demand Draft should be made in favour of Aadhar Housing Finance Limited Only.

5. Auction bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website <https://bankauctions.com>. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the bidding.

6. The intending bidders should register their names at portal M/s C1 INDIA PVT LTD through the link <https://bankauctions.com/registration/signup>, and get their User ID and password free of cost.

The registered bidder may avail training on "E-auction" from the service provider M/s C1 INDIA PVT LTD through the website <https://bankauctions.com>.

7. For any further information, you may contact the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited, M/s C1 INDIA PVT LTD, Mr. Prabhakaran, Mobile No. +917128-8179, E-mail: m/s1@c1india.com & support@bankauctions.com, Phone No. +91791981124/25/26. As on date, there is no restriction regarding and/or court injunction against the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHL), secured creditor's website is [www.aadharhousing.com](http://www.aadharhousing.com).

8. The Bid incremental amount for auction is ₹ 10,000/-.

9. This newspaper publication and the data contained herein is intended for general public dissemination. Any reproduction, distribution, transmission, or republication of this content, in whole or in part, in any form or by any means, whether print, digital, electronic publication in any form, e-mail or web publications, or otherwise through any mode is strictly prohibited. Any unauthorized use of the above content through any mode will result in appropriate legal action by AHL.

10. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (3) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

11. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (4) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

12. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (5) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

13. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (6) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

14. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (7) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

15. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

16. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (9) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

17. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (10) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

18. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (11) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

19. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (12) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

20. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (13) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

21. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (14) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

22. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (15) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

23. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (16) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

24. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (17) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

25. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (18) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

26. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (19) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

27. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (20) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

28. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (21) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

29. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (22) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

30. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (23) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

31. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (24) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

32. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (25) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

33. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (26) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

34. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (27) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

35. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (28) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

36. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (29) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

37. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (30) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

38. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (31) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

39. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (32) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

40. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (33) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

41. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (34) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

42. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (35) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

43. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (36) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

44. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (37) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

45. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (38) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

46. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (39) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

47. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (40) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

48. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (41) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

49. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (42) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

50. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (43) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

51. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (44) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

52. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (45) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

53. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (46) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

54. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (47) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

55. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (48) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

56. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (49) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

57. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (50) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

58. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (51) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

59. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (52) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

60. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (53) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

61. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (54) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset.

62. The bidder's attention is invited to the provisions of subsection (55) of section

